

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25]	नई दिल्ली, अगस्त 21—अगस्त 27, 2016, शनिवार/श्रावण 30—भाद्र 5, 1938
No. 25]	NEW DELHI, AUGUST 21—AUGUST 27, 2016, SATURDAY/ SRAVANA 30—BHADRA 5, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2016

आ. अ. 62 .—आयोग की दिनांक 08 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 76/अरुणाचल- लो.स./2014 में, उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी एवं हिंदी, दोनों रूपों में “पोलिन” शब्द को क्रम सं. 3 में कॉलम सं. 4 पर “पोटिन” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा और इसे इसी रूप में पढ़ा जाएगा।

[सं. 76/अरुणा-लो.स./2014]

एस. बी. जोशी, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th August, 2016

O.N. 62 .— In the Commission’s Notification No. 76/ARUN-HP/2014 dated 08th July, 2016, the word “Polin” shall be substituted and read as “Potin” in Sl. No.3 at column No.4 in both English and Hindi version of the said Notification.

[No. 76/ARUN-HP/2014]

S. B. JOSHI, Secy.